

प्रेस-विज्ञप्ति

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा 'महा ग्राहक परिचर्चा' -विशेष ग्राहक बैठक का आयोजन

पुणे, 16 नवंबर, 2021: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सार्वजनिक क्षेत्र का देश का एक प्रमुख बैंक है। बैंक ने अपने ग्राहकों के साथ संबंधों को और बेहतर करने के लिए देश भर की अपनी सभी शाखाओं और अंचल कार्यालयों में एक विशेष ग्राहक बैठक 'महा ग्राहक परिचर्चा' का आयोजन 15 नवंबर, 2021 को किया, इस बैठक में पुलिसकर्मी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के विशिष्ट अवसर को यादगार बनाने के लिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने सभी ग्राहकों से विशेष रूप से संपर्क कर रहा है ताकि वे बैंक की सभी 1999 शाखाओं और 40 अंचल कार्यालयों से बेहतर रूप से जुड़ सकें। बैंक ने इन बैठकों के माध्यम से स्थानीय एसएचओ (थाना प्रभारी), एसपी, डीएसपी/ सीपी/ डीसीपी/ एसीपी को उनके क्षेत्राधिकार में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर उनकी विशिष्ट सेवा, निष्ठा और समर्पण के लिए संपूर्ण पुलिस फोर्स का आभार व्यक्त किया।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशकगण श्री हेमन्त टम्टा और श्री ए. बी. विजयकुमार ने क्रमशः पुणे और मुंबई में इस विशेष ग्राहक बैठक में सहभाग लिया। महाप्रबंधकगण श्री वी. डी. कोल्हटकर; श्री संजय रूद्र और श्री मनोज करे की उपस्थिति में क्रमशः पुणे शहर अंचल कार्यालय और मुंबई दक्षिण अंचल कार्यालय में आयोजित 'महा ग्राहक परिचर्चा' कार्यक्रम में सुश्री पल्लवी रवींद्र बर्गे, पुलिस अधीक्षक (विधि और अनुसंधान), सीआईडी पुणे में और श्रीमती सुनिता साळुंके ठाकरे, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक (टैफिक), मुंबई में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं।

श्री हेमन्त टम्टा, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुणे में आयोजित 'महा ग्राहक परिचर्चा' को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सभी पीएसबी के बीच व्यवसाय वृद्धि में नंबर 1 के रूप में उभरने के लिए सभी मानकों पर उल्लेखनीय रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इसका पूरा श्रेय बैंक के सम्मानित ग्राहकों और समर्पित कर्मचारियों को जाता है। श्री हेमन्त टम्टा ने कहा कि बैंक अत्यधिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्राहक संतुष्टि के संवर्धन हेतु डिजिटल डिलीवरी तंत्र को विस्तार देने के साथ ग्राहकों की आवश्यकता के अनुकूल उत्पाद प्रदान करने के अपने हरसंभव प्रयास जारी रखेगा।

श्री ए. बी. विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा कि बैंकर आम आदमी और राष्ट्र की सेवा करते हुए लोगों के धन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और बैंक इसे अपना सौभाग्य मानता है कि वह अपने ग्राहकों को अधिकतम सुरक्षा और संरक्षा के साथ सेवा प्रदान करता है। श्री विजयकुमार ने एक प्रगतिशील और सुरक्षित समाज सुनिश्चित करने के लिए निःस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान करने वाले पुलिस फोर्स को धन्यवाद दिया और दूसरों को इसका अनुपालन करने हेतु प्रेरित किया। श्री विजयकुमार ने बैंक की यात्रा को उल्लेखनीय बनाने के लिए ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन हेतु धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बैंक ग्राहक सुरक्षा के मजबूत इरादे के साथ इंटीग्रेटी इंडेक्स और डिजिटल बैंकिंग में नंबर 1 होने के लिए प्रतिबद्ध है।



फोटो में :

फोटो 1 (बाएं से दाएं)- पुणे

1. श्री हेमंत टम्टा, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
2. सुश्री पल्लवी रवींद्र बरगे, पुलिस अधीक्षक (कानून एवं अनुसंधान), सीआईडी, पुणे
3. श्री वी.डी. कोल्हाटकर, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र

फोटो 2 (बाएं से दाएं)- मुंबई

1. श्री संजय रुद्र, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
2. श्री ए बी विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
3. श्रीमती सुनीता सालुंके-ठाकरे आईपीएस, पुलिस अधीक्षक (यातायात), मुंबई
4. श्री मनोज कारे, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र